



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 माघ 1936 (श0)
(सं0 पटना 255) पटना, बृहस्पतिवार, 5 फरवरी 2015

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 जनवरी 2015

सं0 22/नि0सि0(यॉ0)-04-08/2011/298—श्री नंदकिशोर मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरुद्ध पूर्णियाँ परिक्षेत्राधीन जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर के अन्तर्गत मुरली वीयर गेट के निर्माण कार्य को ससमय पूरा नहीं करने, कार्य में अभिरुचि नहीं लेने, अनुशासनहीनता, लापरवाही आदि प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1389 दिनांक 14.11.2011 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस बीच श्री मंडल दिनांक 31.01.2012 को सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप संचालित विभागीय कार्यवाही के अधिसूचना संख्या-229 दिनांक 11.02.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) में सम्पुर्णित किया गया।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 277 दिनांक 26.02.13 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब दिनांक 19.03.2013 समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री मंडल द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में कोई नया तथ्य अथवा बिन्दु उठाया गया है। अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0), सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, पूर्णियाँ के विरुद्ध कार्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं उच्चाधिकारियों के निदेशों का अनुपालन नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के लिए देय पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए दण्ड प्रस्ताव

पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक 417 दिनांक 4.4.14 द्वारा सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से सहमति प्राप्त हेतु भेजा गया।

सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना अपने पत्रांक 1178 दिनांक 20.8.14 द्वारा प्रस्तावित दण्ड प्रस्ताव यथा देय पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती एक वर्ष के लिए रोक पर असहमति जतायी गई। जिसकी समीक्षा पुनः विभाग के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श मानने की बाध्यता विभाग को नहीं है। अतः श्री मंडल के विरुद्ध पूर्व अनुमोदित दंड यथा देय पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए दंड यथावत रखने का निर्णय लिया गया। जिस पर सक्षम पदाधिकार की सहमति प्राप्त है।

उक्त सरकारी निर्णय के आलोक में श्री नंदकिशोर मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (यॉ0) सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दंड दिया गया है —

(1) “देय पेंशन पर 05% (पाँच प्रतिशत) की कटौती एक वर्ष के लिए”

उक्त दंड श्री मंडल, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता (यॉ0) को संसूचित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 255-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>